

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 10 दिसम्बर, 2018

विषय: जनपद पिथौरागढ़, तहसील गंगोलीहाट के ग्राम सनरखोला में 11.827 है० क्षेत्रफल पर सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु मै० सी०एम०डी० मार्इन्स एण्ड मिनरल्स, 6/865 बल्यूटिया बिल्डिंग, बद्रीपुरा, हल्द्वानी, नैनीताल के पक्ष में खनन पट्टा विलेख निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1944/मुख०/पिथौ०/भू०खनि०ई०/(2014-15)/2018, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के साथ संलग्न खनन पट्टा विलेख को निष्पादित कर मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया उक्त निष्पादित खनन पट्टा विलेख के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, विलेख की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

संख्या: 3030 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
2. मै० सी०एम०डी० मार्इन्स एण्ड मिनरल्स, 6/865 बल्यूटिया बिल्डिंग, बद्रीपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अर्पण

(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव